

Date: August 2, 2025

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Symbol: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited (Scrip Code: 532777)

Dear Sir/Madam,

Subject: <u>Intimation of Publication of Notice of the 30th Annual General Meeting and</u>
E-voting Information

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the e-copies of the newspaper publication, confirming the completion of dispatch of Notice of the 30th Annual General Meeting ('AGM') and E-voting information along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25, and providing other necessary information pertaining to the 30th AGM scheduled to be held on Monday, August 25, 2025 at 5:30 P.M. IST through Video Conferencing/Other Audio Visual Means published in the following editions:

- Business Standard (National Daily newspaper) on August 2, 2025

- Business Standard (Daily newspaper of the State) on August 2, 2025


Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Info Edge (India) Limited**

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a





The internship experiment

A look at the varied experiences of Prime Minister's Internship Scheme — what's working, what's not, and what it's teaching India's youth

GEORGIE KOITHARA & RUCHIKA CHITRAVANSHI

New Delhi, 1 August

At the Pune office of a technology major, Yash Padwalkar from Solapur (Maharashtra) began by upskilling in Cloud computing and data engineering before gradually taking on real tasks. A BTech in computer engineering from Dr Babasaheb Ambedkar Technological University, Padwalkar says when he applied for the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS), he didn't even own a laptop. "I was learning programming on YouTube, on my phone.'

Besides a laptop, the scheme, he adds, gave him access to premium learning resources and the kind of industry exposure that would have otherwise been elusive.

Running as a pilot project since October 2024, the scheme aims to bring India's youth up to speed with the skill sets the industry requires. It intends to do so by providing year-long internships to 10 million youth in India's top 500 companies over five years.

An assessment of the first round, currently underway, shows that for many, the scheme has served as a transformative entry point into the professional world, though the experience varies by industry, company and individual initiative. A close look at the journeys of some of the interns reveals both shared themes and contrasting outcomes.

Across the board, interns describe a depth of engagement that often exceeds what traditional internships offer. However, how quickly they access meaningful work depends largely on personal initiative and the host organisation's culture.

For Padwalkar, the learning curve was steep but supported: "There is a manager who explains things, gives us deadlines, and encourages us to figure things out ourselves." If the interns miss the deadlines, they aren't reprimanded. "Instead, they sit with us, explain what went wrong, and guide us through to a solution "

Some, like Sarvesh Bramhane, were thrust into the thick of it from day one. A BTech in computer science from Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Bramhane works at a leading tech firm's advanced artificial intelligence (AI) division in Pune. After initial training, he began contributing to complex projects.

Others experienced a more measured entry.

Mahabubabad (Telangana) resident Charan Mood is an example of how initiative pays off. During his internship at the same company's Hyderabad office, Mood, a BTech in computer science, was given basic tasks to begin with, but managed to get into the thick of things once he sought additional responsibilities.

While Mood had to reach out to his supervisors for more work, many organisations have appointed mentors who check in on the interns and are in touch with them through phone or email.

Navigating corporate corridors Such access is not available to

everyone, though.

Akriti Saxena from Agra (Uttar Pradesh) is currently interning at a hotel chain with a national presence in Pune. She has found the absence of peer groups or structured mentorship a challenge. "Many of us come from regular, middle-class backgrounds — we're not always sure how to navigate the corporate world. A personal mentor could have made this journey even more meaningful," she says.

A senior government official, however, says it is good for an internship to

Work diary

Metric	Round-I (Oct 3, '24)	Round-II (Jan 9, '25)*
Partner companies	280	327
Internship opportunities provided	127,000	118,000
Applications received	621,000	455,000
Unique applicants	181,000	214,000
Internship offers mad	e Over 82,000	Over 71,000
Candidates offered internships	Over 60,000	Ongoing
Candidates who accepoffers	oted Over 28,000	Ongoing
Interns who joined	Over 8,700	Ongoing

* As of July 15, 2025

Top 10 companies with PMIS interns

Rank	Company	No. of candidates currently doing internship under PMIS
1	ONGC	841
2	NTPC	685
3	Power Grid	549
4	Oil India Limited	492
5	HDFC Bank	490
6	NSE	437
7	RIL	402
8	Indian Oil	344
9	MRF	257
10	Numaligarh Refinery	233

Top 10 states with PMIS interns

Rank	State	Number of interns
1	Assam	1,408
2	Uttar Pradesh	1,067
3	Madhya Pradesh	680
4	Bihar	634
5	Odisha	520
6	Kerala	516
7	Maharashtra	513
8	Andhra Pradesh	496
9	West Bengal	467
10	Rajasthan	415
Source	: Parliament data	

be not structured since the idea is for the intern to move freely across departments and learn widely. "Interns need to understand the difference between a job and an internship, then the expectations would be different, too," the official says. "There is a lack of awareness, especially in smaller towns, about this,

which we are working hard to address.' Sougata Roy Choudhury, executive director at the Confederation of Indian Industry (CII), which is working closely with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) on the scheme, says they have been doing weekly online open houses with industry to sensitise them about the programme. "There are FAQs given to them on the model of the training. We are trying to help both sides - companies and interns.

On its internship portal, the MCA has created a redress mechanism for interns. It has also asked states to appoint a nodal person for feedback and monitoring of the scheme.

Regardless of their background, all interns Business Standard spoke to said the programme had improved their selfconfidence. Saxena says besides teaching new skills, the scheme is helping in

personal growth. "I was very introverted. At home, I hardly spoke," she says. "But here, I had to interact with strangers, solve problems quickly, and take initiative."

After the internship, what? For many interns, the challenges go

beyond the scheme. The uncertainty about post-internship outcomes weighs heavily on many. "There's a lack of clarity around post-

internship outcomes," says Padwalkar. "If we knew upfront that there was a clear pathway to employment, it would be easier to convince our parents why we're doing this." Several find their parents unable to

wrap their heads around the concept of internship, where a person works like in a full-time job but still has to be supported financially. "This is especially an issue consider-

ing that the internship is 12-monthlong," Padwalkar says. That said, the scheme has improved employability, with some of the interns

getting approached for jobs by other companies and startups. Besides future uncertainties, having relocated from distant cities, many

interns also point to the high cost of living in bigger cities. Mood says that the stipend of ₹5,000 a month doesn't come close to covering living costs. "What's worse is knowing that interns from NITs (National Insti-

tutes of Technology) doing similar work

in the same company are paid up to ₹70,000 a month.' Travelling to far-flung areas even while living in the same city is also burning a hole in their pockets. Jaipur-based Diya Singh, currently interning in the Pune office of a public-sector enterprise, says: "I travel 35 km each day, which costs ₹200 to ₹300. The ₹5,000 stipend

doesn't even cover that." The MCA, under the present scheme, provides a direct benefit transfer of ₹6,000 to the intern on joining and cover under the PM Jeevan Jyoti Bima and PM Suraksha Yojana, A financial assistance of ₹5,000 per month is also provided to the intern, of which ₹4,500 is disbursed by the government and ₹500 is to be paid by the company from its corporate social responsibility (CSR) funds.

Companies can provide assistance over and above the ₹500 if they so wish. and several of them are paying higher stipends to the interns along with additional benefits.

The challenges the interns point to, meanwhile, are among the reasons the scheme is off to a slow start in the initial phase.

In the first round, the partner companies made over 82,000 internship offers to more than 60,000 candidates. Of these, 28,000 accepted the offer, but eventually only 8,700 joined the internship. The second pilot, meanwhile, has been launched.

In its report tabled in Parliament on July 31, the Standing Committee on Finance flagged similar challenges.

The committee said that without adequate support for living expenses, candidates might be unable to participate, thereby hindering the programme's inclusivity and its potential to attract a diverse pool of talent. The panel also called for periodic independent evaluations for the scheme's transparency.

Challenges aside, most interns describe the scheme as a rare and transformative experience. Even as the government finetunes the programme to prepare for the next steps, whether a third pilot or a full-fledged launch, the interns are already spreading the word. As Singh says: "I've already encouraged my relatives to apply. I think it's a good opportunity to explore and learn.

Date: August 1, 2025

CCVT

CHEMFAB ALKALIS LIMITED

CIN:L24290TN2009PLC071563

Regd. Office: Team House, GST Road, Vandalur, Chennai 600 048. Website: www.chemfabalkalis.com Email: ccalcosecy@ccal.in Phone No: +91 44 22750323 Fax No: +91 44 22750860

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

	FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025 (Amount Rs.)								
		STAND	ALONE	CONSOLIDATED					
SI. No.	Particulars	3 Months ended 30/06/2025	Corresponding 3 months ended 30/06/2024 in the previous year	3 Months ended 30/06/2025	Corresponding 3 months ended 30/06/2024 in the previous year				
1.	Total Income from operations	8,758.10	7,604.05	9,154.09	7,653.11				
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	753.57	610.61	469.98	267.36				
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	753.57	610.61	469.98	267.36				
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	539.40	432.89	254.76	89.57				
5.	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss)								
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	551.14	438.89	266.50	95.57				
6.	Equity Share Capital	1,436.37	1,427.66	1,436.37	1,427.66				
7.	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of current year								
8.	Earning per Share (of Rs. 10 each)								
	(1) Basic (Rs.)	3.76	3.04	1.77	0.63				
	(2) Diluted (Rs.)	3.75	3.01	1.77	0.62				

Date : 01 August 2025

1) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with BSE and NSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company (www.chemfabalkalis.com).

The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:

FOR CHEMFAB ALKALIS LIMITED

SURESH KRISHNAMURTHI RAO

CHAIRMAN DIN No: 00127809

info**edge** INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-110019 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: +91120-3082000; Fax: +91120-3082095 Web: http://www.infoedge.in; Email: investors@naukri.com

NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, August 25, 2025 at 05:30 P.M. IST, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-110019

Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as 'the Circulars'), companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The Company, in compliance with the Circulars, has on August 1, 2025, duly sent the AGM Notice and Annual Report for the FY 2024-25 by e-mail only to the members of the Company holding shares of the Company as on Friday, July 25, 2025 (Cut-off date for sending the Notice) and whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent of the Company. Further pursuant to Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), a letter providing web-link and QR code for accessing the AGM Notice and Annual Report for the FY 2024-25 was dispatched on August 1, 2025, to those members who have not registered their e-mail address(es) either with the Company or with any Depository or MUFG Intime India Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended, the Company is providing Remote E-voting facility ('Remote E-voting') and facility of E-voting during the AGM ('E-voting') (collectively referred as 'electronic voting') to all eligible members as per applicable provisions of the Act and the circulars on all the business items as set out in the Notice of AGM. Members who will not cast their votes by Remote E-voting shall be able to vote at the AGM through E-voting. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') as the Agency to provide electronic voting facility and facility to conduct the AGM through VC/OAVM. Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner, failing him, Mr. Lakhan Gupta, Partner, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries have been appointed as Scrutinizer for conducting the electronic voting process in accordance with the law in a fair and transparent manner.

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, August 18, 2025, only shall be entitled to cast their vote through electronic voting, on businesses as set out in the Notice. Shareholders participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act,
- b. The e-mailing of AGM Notice along with the Annual Report 2024-25 has been completed by the Company on August 1,
- The Remote E-voting period commences on Thursday, August 21, 2025, 09:00 A.M. IST and ends on Sunday, August 24, 2025, 05:00 P.M. IST. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system of NSDL made available by the Company during the AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company & becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, August 18, 2025, may obtain the login ID and password by $sending \ a \ request \ at \ \underline{evoting@nstal.com} \ or \ at \ \underline{evoting@naukri.com}. \ If \ aperson \ is \ already \ registered \ with \ NSDL \ for \ e-voting \ and \ registered \ with \ NSDL \ for \ e-voting \ and \ registered \ and \ reg$ then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Once a vote on a resolution is cast by the member by using Remote E-voting facility, the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by Remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members may note that the Notice of 30th AGM along with Annual Report for the FY 2024-25 is available on the website of the Company at www.infoedge.in and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com
- g. Copies of the relevant documents will be available for inspection in electronic mode during business hours on a working day, up to the date of the AGM. Members can inspect the same by sending an e-mail to investors@naukri.com.
- Members may note that the Company will be providing a facility to view the live streaming of the AGM Webcast on the NSDL website. The members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com by using their Remote E-voting credentials. The Webcast facility will be available 05:30 P.M. onwards on Monday, August 25, 2025.
- Those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail address registered for electronic voting by following the procedure given in the AGM Notice.
- The Company has fixed Friday, July 25, 2025 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for payment of final dividend for FY 2024-25, if approved at the AGM. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) by updating the details prescribed in FORM ISR-1 and other relevant forms with the RTA. Forms are also available at https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Services_CS
- Members may note that the Income-tax Act, 1961, (the 'IT Act') as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ('TDS') at the time of making the payment of final dividend. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit relevant documents in accordance with the provisions of the IT Act. Members are requested to visit https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Services_Tax for format of relevant declaration(s), instructions and information on this subject. The documents are required to be uploaded at https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before August 14, 2025. No communication would be accepted from members after August 14, 2025 regarding tax-withholding matters. Shareholders may write to <u>dividend.tds@infoedge.com</u> for any clarifications on this subject.
- In case of any grievance/concern connected with electronic voting, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at e-mail evoting@nsdl.com, contact no. 022-4886 7000. Members may also contact Ms. Jaya Bhatia, Company Secretary & Compliance Officer for any concern connected with electronic voting at the Corporate Office of the Company at B-8, Sector-132, Noida-201304 (U.P.), Tel.: +91-120-3082005, e-mail: evoting@naukri.com.

Helpdesk for Individual shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Securities held with NSDL	Members facing any issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000
Securities held with CDSL	Members facing any issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911

By Order of the Board of Directors For Info Edge (India) Limited

Jaya Bhatia

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida Membership No. A33211

Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited SARAS SANKUL, JLN. MARG, JAIPUR - 302017, Phone No. 0141-2702501-508, Telefax 0141-2702135 **NOTICE INVITING TENDER**

E-Tenders are invited for "S/E/T/C of Plant and Machinery For Dairy Plant on Turr (ey Basis at Milk Union Barmer" (UBN No. CDF2526GLOB00615) and "S/E/T/C o Refrigeration Plant and Machinery For Dairy Plant on Turn Key Basis at Milk Union Barmer" (UBN No. CDF2526GLOB00616), "S/I of glow shine board at RCDF Building Saras Sankul, Jaipur" (UBN No. CDF2526WSOB00617) and "Various Civil Work and Retaining Wall for Silo at CFP Lambiyakalan, Bhilwara" (UBN No. CDF2526WSOB00618). The estimated cost of above work is Rs. 720.00 Lac , 125.00 ac, 22.85 Lac and 372.00 Lac respectively. Details can be obtained from our website www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in i.e. spp portal.

General Manager (DPM & Projects) Raj.Samwad/C/25/7274 जीवन में मरे रस-हमारा प्यारा 😂

 □ HDFC BANK

विशेष परिचालन विमागः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, ६, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ाचनावर्षा २००२ थे नाचना ३ स्त्रीता बाजा वार्षा उद्दार्श के बाना स्वरा संवर्षा वार्षा के अर्जान उद्यारकर्ता मैससे माँ वैष्णा एंटरप्राइज (उधारकर्ता) इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री राज तिलक गुना और श्री मनोज कुमार साह (बंधककर्ता / गारंटर) **को** मांग सूचना दिनांक 25-04-2025 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 2,54,92,549.06 (रु. दो करोड़ चौवन लाख पाँच सौ उनचास औ** पैसे छह मात्र) दिनांक 24.04.2025 तक और दिनांक 25.04.2025 से उस पर ब्याज एवं प्रभार सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार गारंटर / बधंककर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार , गारंदर / बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित वं अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **जगावरी हरियाणा** में दिनांक **25.07.2025** को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/ गारंटर/बधंककर्ता तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन एचडीएफसी बैंक लि., के प्रभार वास्ते राशि रु. 2,54,92,549.06 (रु. दो करोड़ चौवन लाख पाँच सौ **उनचास और पैसे छह मात्र) और दिनांक 25.04.2025 से आपके द्वारा देय लागू प्रमार साथ ही व्यय और शुक्क आदि** के अधीन होगा। कर्जदार, का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों

के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया

संपत्ति का विवरण	मालिक
संपत्ति सं. प्लॉट संख्या 19, खेवट सं. 189, खतौनी संख्या 205, खसरा सं. 22 / 10 मौजा गुलाब नगर मकान सं. 404, तहसील—जगाधरी, जिला यमुना नगर विक्रय विलेख सं. 1926 दिनांक 21.05.2019 के तहत उप—पंजीयक जगाधरी हरियाणा के पास पंजीकृत क्षेत्रफल 245 वर्ग गज जिसकी सीमाएं. पूर्वः— 20 फीट चौड़ी गली परिचम— प्लॉट सं. 16 उत्तर— प्लॉट सं. 20 दक्षिण: प्लॉट सं. 18 भूमि लैंडमार्क सेंट थॉमस स्कूल के पीछे	श्री राज तिलक गुप्ता
संपत्ति सं. मकान नं. 18, सम्पत्ति आईडी –55C19U147A दिनांक 07-फरवरी–2020 को जारी, खेवट नंबर 200 का समावेश, खतौनी नंबर 217 खसरा नंबर 22/9/2, एवं खेवट नंबर 200 का समावेश, खतौनी नंबर 217 खसरा नंबर 22/9/2, एवं खेवट नं.293, खतौनी नंबर 311, खसरा नंबर 22/9/1 मौजा गुलाब नगर, मोसुम्मा गुलाब पार्क, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर (आनंद नगर नगम ममुना नगर) हरियाणा विक्रय विलेख सं. 4196 दिनांक 18.07.2019 के तहत उप-पंजीयक जगाधरी के पास पंजीकृत क्षेत्रफल 245 वर्ग गज निम्नानुसार सीमाएं: पूर्व:— गली रास्ता 20' चौड़ा पश्चिम: प्लॉट सं. 15 उत्तर: प्लॉट सं. 19 दक्षिण: गली सं. 23' चौड़ा	श्री राज तिलक गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता और श्री मनोज कुमार साह पुत्र श्री शंकर प्रसाद
नोट: उपरोक्त नोटिस को अधिनियम के नियम 6, 8 और 9 के तहत बिक्री के लिए 30	दिन का नोटिस भी

माना जाएगा। स्थानः जगाधरी हरियाणा, दिनांकः 25 जुलाई, 2025 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

JANPATH ESTATES PRIVATE LIMITED (CIN: U70100DL2004PTC210992) NOTICE is hereby given that the Regd. Office - RA-3, Inderputi,

Certificate(s) for 100 equity shares

bearing Equity Certificate Nos. 64025

and 447480 and Distinctive Nos.

3027719 to 3027768 and 618809949 to

618809998 respectively under the folio

Toubro Ltd standing in the name of A

mislaid and the undersigned has/have

applied to the Company to issue

duplicate Certificate(s) for the said

shares. Any person who has any claim

in respect of the said shares should

write to our Registrar. KFin

Technologies Limited, Selenium Tower

B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial

District, Hyderabad-500032 within one

month from this date else the company

will proceed to issue duplicate

NOTICE

NOTICE is hereby given that the

Certificate(s) for 100 equity shares

bearing Equity Certificate Nos. 475062 and Distinctive Nos. 621796568 to

621796667 under the folio number

75113099 of Larsen and Toubro Ltd

standing in the name (s) of A

Venugopala Sarma (deceased), A

Venkata Sarma and Java Sarma

has/have been lost or mislaid and the

undersigned has / have applied to the

Company to issue duplicate

Certificate(s) for the said shares. Any

person who has any claim in respect of

the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited,

Selenium Tower B, Plot 31-32,

Gachibowli, Financial District

Hyderabad-500032 within one month

from this date else the company will

proceed to issue duplicate

Name (s) of Shareholder (s) A Venugopala Sarma (deceased)

A Venkata Sarma

Date: 02-08-2025

Jaya Sarma

Certificate(s).

A Venkat Sarma

Date: 02-08-2025

Name of Shareholder

New Dehi-110012. FORM NO INC-26 [[Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in wspaper for the change in Registerer number 07277393 of Larsen and Office of the Company from one State/UT to another the Central Governmen

Northern Region matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

n the matter of Mis Janpath Estates Private Limited having its registered office at RA-3, Inderguri, New Delhi-110012. Notice is hereby given to General Public

that the company proposes to make the application to the Central Governmen under section 13 of the Companies Az 2013, seeking confirmation of alterator of Memorandum of Association of the passed at Extra Ordinary Genera Aeeting held on Wednesday, 30th day of July, 2025 to enable the company to change its Registered Office from the National Capital Territory of Delhi" to the "State of Punjab". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his her objections supported by an affidavi stating the nature of his/her interest an ground of apposition to the Regiona Director at the Address: B-2 Wing, 2nd Floor, Paryaxaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003, within 14 Days of dat of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registerer office at the address mentioned below RA-3, Inderpuri, New Delhi - 110012 (Present Address)

For and on behalf of applican Janpath Estates Private Limited (Vinay Singal) - Director 6.2025 (DIN:00064236) Date: 02.08.2025

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR

1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015

DEMAND NOTICE NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961. RC/265/2022

M/s. MEENAL CONSMETICS

A Proprietorship firm, through proprietor Mrs. Meenal Gulati, 150, Vinoba Vihar, Malviya Nagar, Jaipur. (CD2) MRS. MEENAL GULATI W/O SHRI

RIO. PLOT NO. 19, VISHNU PURI, MODEL TOWN MALVIYA NAGAR, JAIPUR AND AT: FLAT NO. 11/1323, GROUND FLOOR, MALVIYA NAGAR,

(CD1) M/S MEENAL CONSMETICS,

DEEPAK GULATI

BANK OF INDIA

Next Date:
28.08.2025

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम ाज जनर एप प्रिंप्सिस सरकार का संयुक्त उपक्रम ATAPOWER-DDL रिज. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–110009 CIN No. U40109DL2001PLC111526, osclkbV: tatapower-ddl.com

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार Aug 02, 2025 संशोधित निविदा तिथि/बोली पूर्व प्रकाशित निविदा पूछताछ सं. जमा कराने की तिथि / बोली कार्य का विवरण खोलने की तिथि दिनांक TPDDL/ENGG/ENQ/200001832/25-26 05.08.2025 at 1600 Hrs. 14.06.2025 05.08.2025 at 1630 Hrs TPDDL/ENGG/ENQ/200001826/25-26 12.08.2025 at 1500 Hrs/ 07.06.2025 Annual RC for SITC of Jointing Kits at 12 08 2025 at 1530 Hrs

Bank of India BOI

प्रधान कार्यालय संसाधन संग्रहण विभाग स्टार हाउस – 2, 8 वीं मंजिल सी-4, 'जी' ब्लॉक. बांद्रा-कर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पर्व), मंबई – 400 051 वेबसाइट : www.bankofindia.co.in;

बैंक ऑफ़ इंडिया खाताधारकों की विभिन्न पॉलिसियों हेतु निविदा सूचना के लिए शुद्धिपत्र बैंक ऑफ इंद्रिया ने निविदा संदर्भ संख्या एचओ आरएम जीआर 407 दिनांक 25 07 2025 के माध्यम जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ के संदर्भ में 30.07.2025 को भौतिक एवं ऑनलाइन प्री बिड बैठक का आयोजन किया गया। अटेंडेंट द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को नोट किया गया और बैंक के

उत्तर को GeM पोर्टल और बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट: <u>www.bankofindia.co.in</u> पर "निविदा"

अनभाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। बोली प्रस्तत करने हेत अंतिम तिथि 07 अगस्त 2025

महाप्रबंधक संसाधन संग्रहण विभाग बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय



Home First Finance Company India Limited CIN: L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com

संदर्भ : प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित इसकी संबंधित तिथियों को जारी की थी, जिसमें आप / निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। आप⁄सभी कर्जदार, तथापि, उक्त बकाया राशि नियत समय के भीतर चुकाने में असफल रहे हैं,

का	प्रयोग करते हुए यहां नी	चे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है :			
क्र. सं	कर्जदारों / सह—कर्जदारों / गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथ्य	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
1.	मनोज कुमार	पलैट २३, ब्लॉक-ए, निर्मल आश्रय, खाता नंबर ७७१, खसरा नंबर ३२४, ग्राम अछेजा, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा-२०१४५०	04-07-2023	6,46,536	30-07-2025

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदृद्वारा कर्जदार ⁄ गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियग की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरिवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

एतदृद्वारा विशेष रूप से **कर्जदारों /गारंटरों** तथा **सर्वसाधारण** को सावधान किया जाता है कि उपरि संदर्भित सम्पत्तियों /प्रतिभूत आस्तियों अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करे तथा उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभत आस्तियों के संबंध में यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि. ज

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आरितयों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (a) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 02-08-2025

JBM D

ज्य भारत मारूति लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः पेस सिटी ॥, मोहम्मदपुर झारसा खांडसा गांव के पास, सेक्टर-36 गुड़गांव, हरियाणा- 122001 **फोन न**ः 011-26427104; **फैक्स न**ः 011-26427100

वेबसाइटः www.jbmgroup.com CIN No. 1 29130HR1987PLC130020

30 जून,	2025	को	समाप्त	तिमाही	के	लिये	अनंकेक्षित	परिणामों	का	विवरण	Ī
											_

					(रू लाख में)
		एकल			कित
क्रम सं.	विवरण	30/06/2025 को समाप्त तिमाही	30/06/2024 को समाप्त तिमाही	30/06/2025 को समाप्त तिमाही	30/06/2024 को समाप्त तिमाही
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित
1.	प्रचलनों से कूल आय	55,689.16	53,386.09	55,689.16	53,386.09
2.	अवधि के लिये निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3,558.04	805.23	3,587.17	808.65
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	3,558.04	805.23	3,587.17	808.65
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाम/ (हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	2,307.12	535.88	2,328.81	538.44
5.	अवधि के लिये समग्र आय (लाम/(हानि) शामिल करते हुए अवधि के लिए (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत))	2,434.27	449.25	2,455.73	452.17
6.	इक्विटी अंश पूंजी	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00
7.	आरक्षित पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार	53,754.67	51,473.39	54,096.68	51,704.96
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 2/-) (वार्षिकृत नहीं) (जारी और स्थगित प्रचालनों के लिये)				
	क) बेसिक	2.13	0.50	2.15	0.50
	ख) डाइल्यूटेड	2.13	0.50	2.15	0.50

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 क् अधीन शेयर बाज़ारों के पास दायर किये गये 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र शेयर बाज़ारों NSE, BSE की वेबसाइटों, www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।

स्थानः गरूग्राम

कंपनी की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए क्युआर कोड को स्कैन करें।

कृते जय भारत मारुति लिमिटेड हस्ता०/– एस. के. आर्य

अध्यक्ष DIN 00004626

बोर्ड के आदेशानसा

Amount received after RC issued Rs. 37,88,156/seal of the Tribunal, on this date: 15.07.2025.

(CD3) MRS. KANCHAN GULATI W/O SHRI ASHOK GULATI. R/O. FLAT NO. 11/1323, GROUND FLOOR, MALVIYA

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in 0A(19)2021 an amount of Rs. 31,78,131/. (THIRTY ONE LACS SEVENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY ONE ONLY) and Inte hereon as per Recovery Certificate is due against you Intereun as per necessity destinates to use against some 1. You are hereby directed to pay the above sun within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financia Institutions Act, 1993 and Rules there under.

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 28.08.2025 at 10.30 a.m. for further proceedings.

3. In addition to the sum aforesaid, you will also b

A) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

B) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE

RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU Recover Certificate amount Rs. 31,78,131 2. Cost of the Suit B. Interest from 29.11.2020 to Bs. 35.350/ 19.09.2022

NOTE: Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI. Given under my hand and the Recovery Officer -Debts Recovery Tribunal, Jaipu

नोटिस के अनुसार

देय राशि

43.56.794.96

नांक 24.05.202

+ ब्याज दिनांक

31.03.2025 से एवं भवष्यि ब्याज

प्राधिकृत अधिकारी

की तारीख

24.07.2025

एनपीए की तिथि

🕅 यूको बैंक

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस डी-ब्लॉक, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के संबंध में

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत अधोलिखित ऋणी को मांग नोटिस डाक द्वार भेजा गया था लेकिन नोटिस बिना तामील के वापस लौट आया है। नोटिस के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों को बकाया ऋण राशि+ ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भगतान मांग नोटिस की दिनांक से 60 दिन में करना था। बकाया राशि का भुगतान करने में असफल होने पर बैंक के पास गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का कब्जा धारा 13(4) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऋण वसली हेत लिया जाएगा। बिना तामील के नोटिस की प्रति शाखा प्रबंधक से कार्य समय में प्राप्त करें तथा नोटिस की तारीख से 60 दिन में बकाया राशि का भुगतान ब्याज व अन्य खर्चों सहित जमा करना सुनिश्चित करें। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को छोड़कर उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या व्यवहार करने से रोक दियाँ जाता है। सम्पत्ति की किसी भी प्रकार की बिक्री खरीद **यूकों बैंक बुलंदशहर शाखा** के प्रभार के अधीन होगी।

क्र. सं.	ऋणी / गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण
1.	1. भारत चन्द्र अग्रवाल (ऋणी), पुत्र	बंधक एक डबल स्टोरी गोदाम भवन क्षेत्रफल माप 124.32 वर्गगज स्थित देवीपुरा-1, निकट काली
l		माता मंदिर जिसका नं. 798 (पुराना नं. 718) मीहल्ला देवीपुरा-1 टाउन बुलन्देशहर परगना बरन,
l	आवास विकास कॉलोनी, डीएम रोड,	तहसील और जिला बुलन्दशहर सम्पत्ति स्वामी श्री भारत चन्द्र अग्रवाल और स्व0 श्रीमती मीरा
l	बुलन्दशहर। 2. मीनू अग्रवाल पत्नी	अग्रवाल रजिस्ट्रर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील बुलन्दशहर बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 2042 , पेज
l	भारत चन्द्र अग्रवाल (सह.ऋणी),	233-238, क्रमाक नं. 3082, दिनांक 24.04.1986 में पंजीकृत है। सीमाएँ: पूर्व- नूरजहाँ बेगम की
l		सम्पत्ति, पश्चिम- कृण्णा का गोदाम, उत्तर- सोहन लाल की आरा मिल और पॉली फैक्ट्री, दक्षिण
	कॉलोनी, डीएम रोड, बुलन्दशहर।	-18 फीट चौड़ी रोड।
Г	देनांक—01.08.2025	स्थान— बुलंदशहर

📵 **ૃાષ્ઠ** Housing

स्थान : दिल्ली एनसीआर, दिनांक : 02.08.2025

नोटः

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली —110001 फोनः – 011—23357171, 23357172, 23705414, वे**बसाइटः www.pnbhousing.com हरिद्वार शाखाः** प्रथम तल, आर्य नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार—249407 (उत्तराखंड). **नोएडा शाखाः** भूतल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301 एतदद्वारा सर्व साधारण के और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(शें) एवं गारंटर(शें) को सूबना दी जाती है कि प्रत्यामृत लेनदार के पास बंधक/प्रमारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(या), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेस विसिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्यामृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रान्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार 'जैसी है जाहां है', जैसी है जाहां है' तथा है 'तथा है' को स्वी जाएंगी। एतदहारा कालम नंबर-ए में निदर्शित कर्जदार(शें)/ संबक्तदात(ओं)/ संबंधित कर्जदार(शें)/ संबक्तदात(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (वाह ज्ञात अध्या अज्ञात), निष्मादक्ति), प्रसाधिक के नियम 8(६) एवं 9 के तहत सूचना दी जाति है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।										
ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(\$) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी) वह समस्त संपत्ति जो आवासीय प्लॉट संख्या 20, खसरा संख्या 617, माप क्षेत्र 798	मूल्य (आरपी)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करनेकी अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)		नीलामी की तिथ्यि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/HWR/0319/672295, बी.ओ.: हरिद्वार, सरिता पंवार, राजेश कुमार पंवार	11.02.2025 तक रु. 11,78,010.44	भौतिक कब्जा	वर्ग फीट यानी 74.16 वर्ग मीटर का हिस्सा है, ग्राम रानीपुर (नगर निगम सीमा हरिद्वार, के अंदर), तहसील और जिला हरिद्वार, में रिखत है, सीमाएं इस प्रकार हैं, एवं. व्लॉट संख्या—19, मुजा 57 फीट, पश्चिम: व्लॉट संख्या 20 को शेष भाग, मुजा 57 फीट, उत्तर: प्लॉट संख्या 7, मुजा 14 फीट। संख्क 18 फीट चौड़ी, मुजा 14 फीट।	1188000	₹. 118800	04.09.2025		बर्ज से अप.	अप 02 00	
00166700002911, बी.ओ.: नोएडा, करुणा कौशिक, नीरज कौशिक (सह–आवेदक).	24.09.2024	भौतिक कब्जा	मकान संख्या—एच—3, गोविंदपुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश —201010	रू. 10903000		04.09.2025	रु. 1 लाख	25.08.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप.		

विशाल चंद्र रॉय (गारंटर) 20,47,221.29 कब्जा 5:30 बजे | 03:00 बजे

प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

Tata Power-DDL Site / Stores सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com कब्जा सचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन

अतः **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेंड** ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप—धारा (4) के साथ पठित तदधीन नियमों के प्रावधान के तहत उसको प्रदत्त अधिकारों

क्र. सं	कर्जदारों / सह—कर्जदारों / गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
1.	मनोज कुमार	पलैट 23, ब्लॉक-ए, निर्मल आश्रय, खाता नंबर 779, खसरा नंबर 324, ग्राम अछेजा, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा—201450	04-07-2023	6,46,536	30-07-2025

पर्ण भगतान किए जाने तक उस पर आगे ब्याज के साथ देय होगी, के प्रभाराधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

i∩foedge इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1995PLC068021 । पंजीकृत कार्यालयः जीएफ—12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 कॉर्पोरेट कार्यालयः बी—8, सेक्टर—132, नोएडा—201304 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 0120—3082000, फैक्सः 0120—3082095 वेबः <u>http://www.infoedge.in</u>; ईमेलः <u>investors@naukri.com</u>

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई—वोटिंग सूचना

एतदृवारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को सायं 5:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात जीएफ–12एँ, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 माना जाएगा।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या ०९ / २०२४ दिनांक १९ सितंबर, २०२४ और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र संख्या— SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (जिसे आगे सामूहिक रूप से 'परिपत्रो' कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनियों को सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी ने, परिपत्रों के अनुपालन में, 1 अगस्त, 2025 को, वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को ई—मेल द्वारा भेज दी है, जिनके पास शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 (सूचना भेजने की अंतिम तिथि) तक कंपनी के शेयर हैं। और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) / रजिस्ट्रार एवं कंपनी के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब—लिंक और क्युआर कोड प्रदान करने वाला पत्र 1 अगस्त, 2025 को उन सदस्यों को भेजा गया था, जिन्होंने कंपनी के साथ या किसी डिपॉजिटरी या एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, यथा संशोधित के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों और वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सभी व्यावसायिक मदों पर परिपत्रों के अनुसार सभी पात्र सदस्यों को वार्षिक आम बैठक ('ई–वोटिंग') के दौरान दुरस्थ ई—वोटिंग सुविधा ('ई—वोटिंग') और ई—वोटिंग की सुविधा ('ई—वोटिंग') (सामृहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) प्रदान कर रही है। जो सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालेंगे, वे ई—वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में मतदान कर सकेंगे। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ली हैं। श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध पार्टनर, उनकी अनुपस्थिति में, श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर, उनकी अनुपस्थिति में, श्री लखन गुप्ता, पार्टनर, मेसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को कानून के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए

ए. कट—ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ही, नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएँगा।

कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के साथ एजीएम नोटिस की ई–मेलिंग 1 अगस्त, 2025 को पूरी कर ली गई है।

सी. रिमोट ई—वोटिंग अवधि गुरुवार, 21 अगस्त, 2025, सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर रविवार, 24 अगस्त, 2025, शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं. वे वार्षिक आम बैठक के दौरान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात सोमवार, 18 अगस्त, 2025 तक उसके पास शेयर हैं, वह <u>evoting@nsdl.com</u> या <u>evoting@naukri.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

एक बार जब सदस्य द्वारा रिमोट ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एफ. सदस्य कपया ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2024—25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 30वीं वार्षिक आम बैठक की सचना कंपनी की वेबसाइट www.infoedge.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की

क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर और एनएसडीएल की वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध है। जी. संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां वार्षिक आम बैठक की तिथि तक, कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। सदस्य <u>investors@naukri.com</u> पर ई—मेल भेजकर इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

एच. सदस्य कपया ध्यान दें कि कंपनी एनएसडीएल वेबसाइट पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के वेबकास्ट की लाइव स्टीमिंग देखने की स्विधा प्रदान करेगी। सदस्य अपने रिमोट ई—वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके https://www.evoting.nsdl.com पर इसे देख सकते हैं। वेबकास्ट सुविधा सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को शाम 5:30 बजे से उपलब्ध होगी।

आई. जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई–मेल पता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पंजीकृत करा लें।

कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन मिलने पर, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान हेतू सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेत् शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी (जहाँ शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं) और कंपनी के आरटीए (जहाँ शेयर फिजिकल मोड में रखे जाते हैं) के साथ अपने केवाईसी को फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में निर्धारित विवरणों को आरटीए के साथ अपडेट करके अपडेट करें। फॉर्म https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor Services CS पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ('टीडीएस') की कटौती करनी होगी। कंपनी को लागू होने पर उचित टीडीएस दर निर्धारित करनें में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर प्रासंगिक घोषणा(ओं) के प्रारूप, निर्देशों और जानकारी के लिए https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor Services Tax पर जाएँ। दस्तावेजों को 14 अगस्त, 2025 को या उससे पहले https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर अपलोड करना आवश्यक है। कर—रोक मामलों के संबंध में 14 अगस्त, 2025 के बाद सदस्यों से कोई भी संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेयरधारक इस विषय पर किसी भी

स्पष्टीकरण के लिए dividend.tds@infoedge.com पर लिख सकते हैं। एल. इलेक्टॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / कंसर्न के मामले में. सदस्य एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सश्री पल्लवी म्हात्रे से ई—मेल <u>evoting@nsdl.com</u>, संपर्क संख्या 022—4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सुश्री जया भाटिया से कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश), दूरभाष: +91-120-3082005, ई-मेल: evoting@naukri.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल के पास रखी प्रतिभूतियाँ	लॉगिन में किसी भी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजकर या 022–4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास रखी प्रतिभूतियाँ	लॉगिन में किसी भी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड जया भाटिया कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या A33211

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः नोएडा

दिनांकः अगस्त 1, 2025